



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-394/2022

दिनांक- 28-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

मारपीट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी श्री संतोष कुमार S/O रामअवध राम ग्रा0 व पो0 भालाखुर्द, थाना वहरियाबाद, जिला- गाजीपुर ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 27/09/22 को वादी के बेटे सिकन्दर कुमार व उसके दोस्त सहित कुल 04 को उचेहुआ मार्केट मे कोचिंग के लिए जा रहे थे तभी विपक्षी ओमप्रकाश यादव उर्फ भुट्टा पुत्र सुबेदार निवासी उचहुआ थाना तरवा आजमगढ आदि 04 नफर द्वारा जाति सुचक शब्दो का प्रयोग कर गाली दिया गया, मना करने पर वादी के लड़के व उसके साथियो को मार पीट कर घायल कर दिया गया व स्कूटी तोड़कर वापस जाते समय जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 266/22 धारा 323,504,506,427 भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5क एस.सी. एस.टी. एक्ट बनाम 04 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 28.11.2022 को उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 ओमप्रकाश यादव उर्फ भुट्टा पुत्र सुबेदार निवासी उचहुआ थाना तरवा आजमगढ को मुकदमा उपरोक्त में धारा 41(1) दं0प्र0सं0 की नोटिस तामिला कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त के घर पर दविश दी गयी घर पर अपने दरवाजे पर मौजूद मिला जिसे समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 266/22 धारा 323,504,506,427 भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5क एस.सी. एस.टी. एक्ट थाना तरवा आजमगढ आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	266/22	323,504,506,427 भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5क एस.सी. एस.टी. एक्ट	तरवा	आजमगढ
2	138/15	147, 148, 149, 307, 307, 308, 323, 504, 506 भादवि व 3(2)5 एसी/एसटी	तरवा	आजमगढ
3	328/10	323, 325, 504, 506 भादवि	तरवा	आजमगढ
4	48/07	110 जी	तरवा	आजमगढ
5	90/01	¾ गुड़ा एक्ट	तरवा	आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1. ओमप्रकाश यादव उर्फ भुट्टा पुत्र सुबेदार निवासी उचहुआ थाना तरवा आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह का0 अमीत सिंह, का0 महेश यादव, म0का0 अंकिता शर्मा थाना तरवा आजमगढ

थाना- मेंहनाजपुर

07 घण्टे के अन्दर चोरी गये बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादी - रविन्द्र पासवान पुत्र दिलीप पासवान निवासी सरसौला खुर्द थाना शिवहर जनपद शिवहर बिहार ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 27.11.2022 को समय करीब 14.15 बजे तियरा तिराहे पर अपनी मोटर साइकिल न. BR55B0878 पैशन प्रो को खड़ा कर दुकान पर नास्ता कर रहा था | उसी समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की नियत से आवेदक की मोटर साइकिल न. BR55B0878 पैशन प्रो को लेकर भाग गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 162/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 27.11.2022 को HC एजाज अहमद कमाण्डर PRV 1035 मय हमराह HG चालक जितेन्द्र कुमार मिश्रा के PRV वाहन संख्या 1035 के क्षेत्र में मौजूद थे कि कालर रविन्द्र पासवान उपरोक्त द्वारा मो0न0 9525xxxxxxx के माध्यम से कंट्रोल 112 न0 पर ही दी गयी सूचना की एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल न0 BR55B 0878 पैशन प्रो तियरा तिराहा से चोरी कर लिया गया है

उक्त सूचना पर मौके से प्रस्थान कर घटना स्थल तियरा तिराहा अन्तर्गत थाना मेहनाजपुर आया तियरा तिराहे पर कालर उपरोक्त मौजूद मिला चोरी की घटना की आरम्भिक पुष्टि के उपरान्त कालर द्वारा बताये गये दिशा की तरफ मोटर साइकिल चुराकर भागे व्यक्ति की तलाश में तियरा गाँव की तरफ जा रहे मुख्य सड़क मार्ग पर पहुच कर मोड़ के पास आने जाने वाले मोटर साइकिल सवारो (संदिग्ध) की चेकिंग करने लगा कुछ समय पश्चात एक संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को चेकिंग के क्रम में रुकने का इशारा किया गया तो अचानक पुलिस वालों को देखकर संदिग्ध मोटर साइकिल सवार व्यक्ति मोटर साइकिल मोड़कर पीछे की तरफ भागना चाहा कि उक्त संदिग्ध मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम **विरजु खरवार पुत्र जोगेश खरवार निवासी निहुला थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष** बताया । बरामदशुदा मोटरसाइकिल न0 BR55B 0878 पैशन प्रो की चोरी के उपरांत बरामदगी दण्ड से अवगत कराते हुए पकड़े गये व्यक्तियों को जुर्म धारा 379/411 IPC का दण्डनीय अपराध बताकर नियमानुसार समय करीब 18:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.स. 162/22 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1-विरजु खरवार पुत्र जोगेश खरवार निवासी निहुला थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

बरामदगी :-

1-चोरी गये एक अदद मोटर साइकिल न0 BR55B 0878 पैशन प्रो

गिरफ्तार करने वाली टीम

01. HC एजाज अहमद कमाण्डर PRV 1035

02. HG चालक जितेन्द्र कुमार मिश्रा PRV 1035